

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]

दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2019/अग्रहायण 22, 1941

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 325

No. 350]

DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2019/AGRAHAYANA 22, 1941

[N.C.T.D. No. 325

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सं. 38/2019—राज्य कर

सं. फा. 3(87)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डीएस-VI/614.—उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप आईटीसी-04 में चालान के ब्यौरे देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो ऐसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे की उक्त व्यक्तियों से जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए उक्त नियम के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप आईटीसी-04 देने की अपेक्षा नहीं होगी :

परंतु उक्त व्यक्ति, अप्रैल से जून 2019 तक की तिमाही के लिए प्ररूप आईटीसी-04 की क्रम संख्या 4 में, जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि में छुटपुट काम करने वाले कर्मकार को भेजे गए ऐसे माल के संबंध में सभी चालानों के ब्यौरे देंगे, जो कर्मकार से वापिस प्राप्त नहीं हुआ है या जिसका छुटपुट काम करने वाले कर्मकार के स्थान से प्रदाय नहीं किया गया है।

2. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
ए. के. सिंह, उप सचिव—VI (वित्त)

### FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2019

#### No. 38/2019- State Tax

**No. F. 3(87)/Fin.(Rev-I)/2019-20/ DS-VI/614.**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons required to furnish the details of challans in **FORM ITC-04** under sub-rule (3) of rule 45 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), read with section 143 of the said Act, as the class of registered persons who shall follow the special procedure such that the said persons shall not be required to furnish **FORM ITC-04** under sub- rule (3) of rule 45 of the said rules for the period July, 2017 to March, 2019.

Provided that the said persons shall furnish the details of all the challans in respect of goods dispatched to a job worker in the period July, 2017 to March, 2019 but not received from a job worker or not supplied from the place of business of the job worker as on the 31st March, 2019, in serial number 4 of **FORM ITC-04** for the quarter April-June, 2019.

2. This notification shall come into force on the 31<sup>st</sup> August, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH Dy. Secy.-VI (Finance)